

## विद्युत् (बिजली) ELECTRICITY (POWER)

क्र.सि	विवरण Particulars	31-12-2012
1.	पावर हाउस Power House(No.)	50
	जल विद्युत् Hydro Electricity - 1 डीजल Diesel - 49	
2	स्थापित क्षमता Installed Capacity(MW)	98
	जल विद्युत् Hydro Electricity- 5.25 डीजल Diesel -92.75	
3	उत्पादन Generation(MU)	252
	जल विद्युत् Hydro Electricity - 11.44 डीजल Diesel - 240.56	
4	उपभोग Consumption(MU)	200.52
5	विद्युतीकृत गाँव Village Electrified(No.)	341
6	कुल उपभोक्ता Total Consumers(No.)	111327
7.	विद्युतीकृत परिवार Households Electrified(No.)	94699
8.	कुल अर्जित राजस्व (करोड में) Total Revenue collected (Rs.in crores)	83.42

### Sectorwise Consumption

(as on 31<sup>st</sup> Dec.2012)

क्र. Sl.	विवरण Particulars	उपभोग Consumption(MU)	उपभोग (%) % of Consumption
1.	घरेलू Domestic	94.91	47.33
2.	वाणिज्य Commercial	52.75	26.32
3.	कृषि Agriculture	0.90	0.45
4.	Street light	9.34	4.65
5.	उद्योग Industrial	10.98	5.47
6.	अन्य Others	31.64	15.78
	<b>कुल Total</b>	<b>200.52</b>	<b>100.00</b>

क्र. Sl.	विवरण Particulars	ईकाई Unit	2012
1.	पावर हाउस Power house –सरकारी Govt.	No.	49
	- निजी Private	"	1
2.	Diesel generating sets - सरकारी Govt.	"	129
	- निजी Private	"	4
3.	Distribution Transformer	"	847
4.	Total Transformer Capacity	KW	128417
5.	Transmission losses through distribution	%	18.5
6.	Length of Transmission lines	Km.	HT Line 665 Lt line 3345
7.	Electrical Accident during 2012	No.	-
8.	Per Capita consumption of Electricity during 2012	KWh	527.76